

आपका खबर आपकी कता अभियान

वोट करें देश गर्हें



प्रभात खबर

अखबार नहीं आंदोलन

कोलकाता, बुधवार

15.05.2024

कैलकत मुक 07 मगत 2081

पृष्ठ 10, मुद्रण : ₹ 5

शिकारत कलकत

ऑफ : 25, अरु : 133

रजिस्ट्रेशन : WJ114229/2000/2711

prabhatkhabar.com

कोलकाता | रावी | घटना | जलसेतु | धनबाद | देवघर | कुजाघर | कलकतुर से प्रकाशित

रोचक प्रसंग

1971 त्रिके पावरे लोकतन्त्रा चुनाव के लिए ही नही, बरकि भारत-पाकिस्तान युद्ध के लिए भी जाना जाता है. यह साल इतिहास गर्धी के लिए बरत अदन वा. इन कत तक कर्षित के दो फाड हो चुके थे इतिहास को कर्षित के सीधर से ही कुजीती मिल रही थी.



देश-विदेश | 10

कंगाल पाकिस्तान समी सरकारी कंपनियां सेवेगा



लोकसंघ का महासंवाग | 08

पावतै चरण में सीएए, अल्पसंख्यक गणित व गठबंधन की होगी बड़ी भूमिका

अपना शहर



शिपि : कलकते शिपि 2011-5.55 तक उपरत अरुधे शिपि नगर : अरुधे नगर शिपि 5.03 तक उपरत कत नगर पत्र : मुकुर, पत्र-कलकत, शिकारत मुकुर-2001, मुकुर मुकुर-1046 बंगल : शरकि-1, शिपि-मुकुर, पत्र-कलकत, बंगल-1431, - पत्रिके मुकुर

प्रभात खबर

कोलकाता, बुधवार

15.05.2024

03

prabhatkhabar.com

आसनसोल

आज सुर्वासा 06:17 बजे



कल सुर्वासा 04:59 बजे

डीपीएस आसनसोल का दसवीं व बारहवीं की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन

प्रतिनिधि, आसनसोल

सीवीएसइ ने गत 13 मई को 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों को घोषित किया, जिसमें दिल्ली पब्लिक स्कूल आसनसोल के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया. कक्षा दसवीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कुल 42 छात्रों में से 18 छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर विद्यालय तथा अभिभावकों को गौरवान्वित किया. 97.6% अंक प्राप्त कर श्रेयस राज ने विद्यालय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया.

वहीं देवदीप शंघाई गणित तथा विज्ञान विषय में शत - प्रतिशत अंक हासिल कर 97% अंकों के साथ द्वितीय स्थान पर रहे. कक्षा दसवीं में ही ईशा नौशीन ने 95.8 प्रतिशत अंकों के साथ तृतीय स्थान प्राप्त किया. कक्षा

12वीं में अमीषा बांका 93.2% अंकों के साथ प्रथम स्थान पर, पावली सरकार 92.2% अंक प्राप्त कर द्वितीय तथा उपांशु दास 90.2% अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान पर रहे. प्रधानाचार्या विनीता श्रीवास्तव ने

अपने संदेश में छात्रों की उपलब्धियों पर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करते हुए कहा कि खुद से प्रतिस्पर्धा हमें बेहतर बनाती है. आत्मस्पर्धा द्वारा आत्म सुधार के दूरगामी और दीर्घकालिक प्रभाव प्राप्त होते हैं.

